



परिपत्र समस्त शाखाओं/कार्यालयों हेतु

पेंशन प्रकोष्ठ, मानव संसाधन प्रबंध विभाग द्वारा निर्गत

प्रिय महोदय,

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्रोत पर आयकर कटौती/निवेश घोषणापत्र के सम्बन्ध में

एतद्वारा सभी शाखाओं/कार्यालयों/पेंशनर्स का ध्यान आयकर पात्रता की श्रेणी में आने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नियमानुसार स्रोत पर आयकर की कटौती की तरफ आकर्षित किया जाता है। सभी इस तथ्य से अवगत ही हैं कि स्रोत से प्रतिमाह आयकर की कटौती करते हुए राशि आयकर विभाग को प्रेषित की जानी है तथा प्रत्येक व्यक्ति को आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है।

अतएव समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों से आयकर हेतु चुने जाने वाले विकल्प एवं आयकर छूट प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित निवेश तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय की मदवार घोषणापत्र संलग्न प्रारूप पर प्राप्त किया जाना है।

ज्ञात हो कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रस्तुत निवेश घोषणा पत्र के सापेक्ष दिसम्बर माह (2022) तक सम्यक साक्ष्य की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करानी होगी अन्यथा की दशा में उनके द्वारा दिये गये आयकर निवेश सम्बन्धी घोषणा को शून्य मानते हुए शेष महीनों में शेष आयकर कटौती कर ली जाएगी।

अतः सभी शाखाएं/कार्यालय वस्तुस्थिति से सेवानिवृत्त कार्मिकों को अवगत कराना सुनिश्चित करें साथ ही इच्छुक पेंशनर्स से प्राप्त आयकर निवेश सम्बन्धी घोषणापत्र व साक्ष्य इस कार्यालय को उचित माध्यम से (Through Proper Channel) रजिस्टर्ड डाक द्वारा एवं email ID : pensioncell.bupgb@barodauprrb.co.in के माध्यम से प्रेषित किये जाने की व्यवस्था करें।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(देबाशीष बरुआ)

महाप्रबंधक

संलग्न: यथोक्त



BARODA U. P. BANK
(HEAD OFFICE ; TARAMANDAL, GORAKHPUR)

Name of Pensioner :
E.C. No. :
PF No. :
Designation :
PAN :
Region from retired :

The Chief Manager (Pension),
Baroda U. P. Bank,
Head Office,
Gorakhpur

Sir/Madam,

I wish to inform you that I hereby opt following Income Tax Option- (Tick one option)

Option-1	I opt old rates of Income Tax	
Option-2	I opt new rates of Income Tax. I am furnishing other income details	

Kindly take into account the investments made/to be made by me on or before 31st March, 2023 for assessing my income tax liability for the financial year ending 31st March, 2023.

01. PUBLIC PROVIDENT FUND ACCOUNT:	<u>AMOUNT (Rs)</u>			
Account No.				
Name of Bank/Post Office				
02. INVESTMENT IN TAX SAVING FD:				
No.	Date	Amount (Rs)		
03. LIC PREMIUM (OTHER THAN SSS):				
Policy No.	Date	Amount (Rs)		
04. UNIT LINKED INSURANCE PLAN:				
Membership No.	Date	Amount (Rs)		
05. NATIONAL SAVING CERTIFICATE- VIII PURCHASED DURING THE FINANCIAL YEAR 2022 - 2023				
Certificate No.	Date	Amount (Rs)		
06. EDUCATION EXPENSES: (TUITION FEE ONLY):				
No.	Date	Amount (Rs)		
07. HOUSE LOAN ACCOUNT:				
Account No.	Amount (Rs)			
Instalment per month				
Repayment towards principal during the FY 2022-23				
Interest charged during the FY 2022-23				
08. INTEREST ON NSC (RE-INVESTED):				
No.	Date	Amount (Rs)	Amt. of Interest	



(2)

09. **MEDICAL INSURANCE PREMIUM :**

Policy No.	Date	Amount (Rs)

10. **OTHER INCOME IF ANY REPORTED BY EMPLOYEE :**

11. **MEDICAL TREATMENT OF HANDICAPPED DEPENDENT AND AMOUNT DEPOSITED FOR THEIR MAINTENANCE (SECTION 80 DD):**

Declaration in respect of deposits made for the maintenance of handicapped dependents in case of death amount incurred for the treatment of handicapped dependents.

Details	Date	Amount (Rs)

12. **EXPENDITURE ON MEDICAL TREATMENT OF SPECIFIED DISEASES/AILMENT (Section 88 DDB)**

Details	Date	Amount (Rs)

13. **ADDITIONAL DEDUCTION (Section 80 U):** **AMOUNT (Rs.)**

14. **CONTRIBUTION TO PENSION SCHEME: (NPS)**

15. **INTEREST ON EDUCATION LOAN:**

(Please provide the Interest Certificate from concerned instituton.)

Note: Form 12-C Mandatory for All

I have enclosed the necessary documentary evidence of my investments mentioned above.

Place :

Date :

SIGNATURE:

NAME :

UNDERTAKING

I undertake to make investment before 31st March, 2023 and produce documentary evidence thereof to concerned authorities.

Place :

Date :

SIGNATURE:

NAME :



FORM – 12-C (Revised)

PARTICULARS OF INCOME OTHER THAN SALARY FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING 31ST MARCH, 2023

1. Name and Address :
2. Permanent Account Number :
3. Particulars of income under any head of income other than "Salaries" (not being a loss under any such head other than the loss under the head "Income from House Property") received in the financial year.
 - a. Income from House property :Rs.
(in case of loss, enclose computation thereof)
 - b. Profit & gains in business or profession :Rs.
 - c. Capital Gains :Rs.
 - d. Income from other Sources :Rs.
 - i. Dividends :Rs.
 - ii. (a) Interest on Saving Bank (Under TTA, Max 10000) :Rs.
(b) Interest on Saving Bank (Above 10000) :Rs.
 - iii. (a) Interest on Fix Deposit (Under TTB) (Max 50000) :Rs.
(b) Interest on Fix Deposte (Above 50000) :Rs.
 - iv. Other interest Income :Rs.
 - v. Any Other Income (please specify) :Rs.

TOTAL :Rs.

e. Tax deducted at source (enclose certificate(s) issued under Section 203)

Place :
Date :

SIGNATURE OF THE PENSIONER

VERIFICATION

I do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.

Verified today, the day of.....

Place:
Date :

SIGNATURE OF THE PENSIONER